

# नवभारत टाइम्स

## अब जान सकेंगे फ्लाइट का खाना कितना सुरक्षित, एयरलाइन्स जल्द देंगे डीटेल्स

टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Oct 2, 2018



फ्लाइट में मिलने वाले मील ट्रे में जल्द ही एयरलाइन्स आपको उस मील में मौजूद सभी प्रकार के तत्वों की जानकारी देंगे। उसकी पैकिंग की तारीख, बेस्ट बिफोर आदी जानकारियां एयरलाइन्स को मील के पैकेट पर देनी होंगी। फ्लाइट में मिलने वाले खाने की गिरती गुणवत्ता की कई शिकायतों के बाद भारतीय फूड रेगुलेटर्स ने इनके बारे में परीक्षण करने का फैसला लिया। फूड रेगुलेटर्स अब मीलस की पैकिंग से लेकर उसे ले जाने तक की प्रक्रिया की जांच करेंगे।

एफएसएसएआई (FSSAI) के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को एयरलाइन्स, फ्लाइट केटरर और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ बैठक की थी। पवन ने बताया कि कई बार यात्री प्लेन में मिलने वाले खाने की चीजों की खराब क्वालिटी की शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी इस मुद्दे को दूसरे का मामला बता देते हैं इसलिए हमने सबको एकसाथ बुलाकर बैठक की ताकि खाने की सुरक्षा और सफाई के हर चरण पर विचार हो सके।

फ्लाइट का किचन, जहां खाना बनता और पैक होता है वह भारत की टॉप हॉस्पिटैलिटी चेन द्वारा संचालित किया जाता है इसलिए उनसे खाने के बारे में सभी डीटेल्स पैकेट पर देने को कहा जा सकता है जिससे यात्री जान सकें कि

वे क्या ग्रहण कर रहे हैं और वह उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। फ्लाइट में मिलने वाले सैंडविच और स्नैक्स पर डेट होती है। एफएसएसआई चाहता है कि इसी तरह अनपैकेज्ड प्रॉडक्ट्स जैसे पुलाव या पास्ता की जानकारी भी यात्रियों को दी जाए।

फ्लाइट में खाद्य सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों और हमारे रेग्युलेटर्स के नियमों के हिसाब से फ्लाइट केटरिंग के लिए नई गाइडलाइन बनाई जाएगी। वहीं, केटरर्स का कहना है कि वे यात्रियों को स्वादिष्ट और सुरक्षित खाना देने की पूरी कोशिश करते हैं। एक फ्लाइट केटरिंग अधिकारी ने कहा, 'जो कुछ हमारे हाथ में है हम वह पूरी तरह से करते हैं लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मील लाने वाले ट्रकों के आने में लगने वाला समय आदि। मील के पैक करने से लेकर उन्हें सर्व करने के बीच में कई प्रक्रियाएं होती हैं।'